

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये जिला स्तर की जिला दमोह की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है. जिला दमोह के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार जिलों की सूची

मौसम खरीफ		वर्ष 2016-2017	
क्र. (1)	जिला (2)	मूंग (3)	उड़द (4)
1	दमोह	-	उड़द

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार जिलों की सूची

मौसम रबी		वर्ष 2016-2017
क्र. (1)	जिला (2)	मसूर (3)
1	दमोह	मसूर